

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.10.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 24.10.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01-उप निर्वाचन-2020 के दृष्टीगत कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 02 अभियोग पंजीकृत कर 03 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, 20 लीटर कच्ची शराब व 65 शीशी देशी बण्टी बबली शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन नष्ट।

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय एवं संलिप्त व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.10.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री शिष्यपाल के निर्देशन एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए संभावित स्थानों पर दबिस व चेकिंग करते हुए कुल 03 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 02 अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके कब्जे से कुल 20 लीटर कच्ची शराब व 65 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया एवं लगभग 400 लीटर लहन नष्ट किया गया। उक्त अभियान अभी जारी है।

02.थाना मईल पुलिस द्वारा एक अदद वाहन ट्रक से 24 राशि गोवंशीय पशु के साथ 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया-

दिनांक 24.10.2020 को थानाध्यक्ष मईल मय टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर लार रोड बढ़या हरदो के पास से 01 अदद ट्रक नं0 यूपी-50, एटी-3178 में 11 राशि बैल व 13 राशि गाय पशु लदे हुए पकड़े गये। बरामद पशुओं व वाहन को कब्जे में लेते तीन व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.राजू उर्फ लड्डन पुत्र इसराफिल सा0 बखलीस थाना जियनपुर, आजमगढ़ 02.वसीम पुत्र अज्ञात सा0 अज्ञात 03.रिजवान उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 मिस्टर सा0 शाहगंज थाना सिधारी आजमगढ़ के सम्बन्ध में थाना मईल पुलिस द्वारा 3/5ए/8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया ।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 24.10.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 01 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:

➡ **थाना-बनकटा मु0अ0सं0 186/2020 धारा-392,323,411,473 01.राजन शाह पुत्र बलिराम शाह सा0 नया गांव थाना हथुवा जनपद-गोपालगंज, बिहार।**

04. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 24.10.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 22 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों के विरुद्ध 3/4 गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों के विरूद्ध 110जी के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

05. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 24.10.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 213 वाहनों से 194300 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

